

**Staff Selection Commission**
(Government Of India)**REGISTRATION NUMBER :** [KnowledgePhilic.com](#)**EXAM DATE :** 2-February-2017**EXAM NAME :** SSC Examination 2016**TOTAL MARKS :** 200**CANDIDATE NAME :** [KnowledgePhilic.com](#)**EXAM START TIME :** 16:15:00**EXAM DURATION :** 01:15 Hrs**TOTAL NO OF QUESTIONS :** 100**QID : 201** - Choose the related word/letters/number from the given alternatives.

Nest : Bird : : Den : ?

दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द/अक्षर/संख्या को चुनिए।

घोसला : पक्षी : : गुफा : ?

Options:

1) Owl

उल्लू

2) Lion

सिंह

3) Rat

चूहा

4) Goat

बकरी

Correct Answer: Lion

सिंह

Candidate Answer: Lion

सिंह

QID : 202 - Choose the related word/letters/number from the given alternatives.

NPR : GHI : : TVX : ?

दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द/अक्षर/संख्या को चुनिए।

NPR : GHI : : TVX : ?

Options:

1) JKL

2) KLM

3) IJK

4) IKL

Correct Answer: JKL**Candidate Answer:** JKL**QID : 203** - Choose the related word/letters/number from the given alternatives.

AF : BE : : ? : DH

दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द/अक्षर/संख्या को चुनिए।

AF : BE : : ? : DH

Options:

1) CH

2) CG

3) DG

4) CI

Correct Answer: CI**Candidate Answer:** CI**QID : 204** - Choose the related word/letters/number from the given alternatives.

36 : 6 : : 441 : ?

दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द/अक्षर/संख्या को चुनिए।

36 : 6 : : 441 : ?

Options:

1) 11

2) 21

3) 25

4) 32

Correct Answer: 21**Candidate Answer:** 21

QID : 210 - A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series.

DP, EY, FJ, ?

एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए, जो अनुक्रम को पूरा करे।

DP, EY, FJ, ?

Options:

- 1) GX
- 2) GS
- 3) GT
- 4) GW

Correct Answer: GW

Candidate Answer: GW

QID : 211 - A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series.

DAF, FED, HIB, ?

एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए, जो अनुक्रम को पूरा करे।

DAF, FED, HIB, ?

Options:

- 1) JMZ
- 2) JOY
- 3) LUX
- 4) JOZ

Correct Answer: JMZ

Candidate Answer: JMZ

QID : 212 - A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series.

1, 7, 42, 210, 840, ?

एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए, जो अनुक्रम को पूरा करे।

1, 7, 42, 210, 840, ?

Options:

- 1) 1240
- 2) 2640
- 3) 1680
- 4) 2520

Correct Answer: 2520

Candidate Answer: 2520

QID : 213 - In the following question, two statements are given each followed by two conclusions I and II. You have to consider the statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. You have to decide which of the given conclusions, if any, follows from the given statements.

Statement:

- (I) Children play in the playground.
- (II) It gives them a different approach of problem solving and decision making.

Conclusions:

- (I) Playing outdoor is very necessary for overall development of child.
- (II) There should be balance between playing and studying for a child.

निम्नलिखित प्रश्न में, दो कथन दिए गए हैं जिनके आगे दो निष्कर्ष I और II निकाले गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा/कौन से निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है/सकते हैं, यदि कोई हो।

कथन:

- (I) बच्चे मैदान में खेलते हैं।
- (II) इससे उन्हें समस्या से जूझने और निर्णय लेने की दृष्टि मिलती है।

निष्कर्ष:

- (I) बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए मैदान में खेलना बहुत जरूरी है।
- (II) बच्चों की पढ़ाई और खेल के बीच एक संतुलन होना चाहिए।

Options:

- 1) Only conclusion II follows
केवल निष्कर्ष II लागू होता है।
- 2) Conclusion I and II both follow
निष्कर्ष I और II दोनों लागू होता है।
- 3) Neither I nor II follow
न निष्कर्ष I न ही II लागू होता है।
- 4) Only conclusion I follows
केवल निष्कर्ष I लागू होता है।

Correct Answer: Only conclusion I follows

केवल निष्कर्ष I लागू होता है।

Candidate Answer: Only conclusion I follows

केवल निष्कर्ष I लागू होता है।

Options:

1) 76, 23, 85, 21, 78, 20

2) 87, 23, 79, 21, 78, 20

3) 87, 12, 68, 21, 99, 33

4) 98, 23, 68, 96, 78, 20

Correct Answer: 87, 23, 79, 21, 78, 20**Candidate Answer:** 87, 23, 79, 21, 78, 20**QID : 222** - Aryan has a brother named Bishnu. Aryan is the son of Chetan. Dev is Chetan's father. In term of relationship, what is Bishnu of Dev?

आर्यन का एक भाई विष्णु है, आर्यन, चेतन का बेटा है। देव, चेतन के पिता हैं। संबंधों के अनुसार, विष्णु देव से कैसे संबंधित है?

Options:

1) Grandson

पोता

2) Father

पिता

3) Brother

भाई

4) Cousin

चचेरा भाई

Correct Answer: Grandson

पोता

Candidate Answer: Grandson

पोता

QID : 223 -

If a mirror is placed on the line MN, then which of the answer figures is the right image of the given figure?

यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए, तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्नआकृति की सही प्रतिबिम्ब होगी?



KnowledgePhilic.com

UPSC | SSC | Bank | Railway | Lic | Fci | DMRC

Options:

1)



2)



3)



4)

**Correct Answer:****Candidate Answer:**

QID : 224 - Identify the diagram that best represents the relationship among the given classes.

Food Supplement, Bournvita, Horlicks

वह अरिख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है।

पूरक आहार, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स

Options:

1)



2)



3)



4)



Correct Answer:



Candidate Answer:



KnowledgePhilic.com

QID : 225 -

A piece of paper is folded and punched as shown below in the question figures. From the given answer figures, indicate how it will appear when opened.

नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा?



Options:

1)



2)



3)



4)



QID : 230 - The modern periodic table consists of 18 groups and 7 periods. What is the atomic number of the element placed in the 3rd group and the 4th period?

आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, जिसे तीसरे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है?

Options:

- 1) 23
- 2) 21
- 3) 19
- 4) 11

Correct Answer: 21

Candidate Answer: 21

QID : 231 - Which of the following elements has the lowest melting point?

निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है?

Options:

- 1) Oxygen
ऑक्सीजन
- 2) Gold
गोल्ड
- 3) Silver
सिल्वर
- 4) Manganese
मैंगनीज

Correct Answer: Oxygen

ऑक्सीजन

Candidate Answer: Manganese

मैंगनीज

QID : 232 - Who is known as father of computer?

कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है?

Options:

- 1) Charles Babbage
चार्ल्स बेबेज
- 2) Tim Berners Lee
टिम बर्नर्स ली
- 3) Douglas Carl Engelbart
डगलस कार्ल एंजलबर्ट
- 4) Sabeer Bhatia
सबीर भाटिया

Correct Answer: Charles Babbage

चार्ल्स बेबेज

Candidate Answer: Charles Babbage

चार्ल्स बेबेज

QID : 233 - Urdu is the official language of _____.

उर्दू _____ की शासकीय भाषा है।

Options:

- 1) Andhra Pradesh
आंध्रप्रदेश
- 2) Arunachal Pradesh
अरुणाचल प्रदेश
- 3) West Bengal
पं. बंगाल
- 4) Jammu & Kashmir
जम्मू और कश्मीर

Correct Answer: Jammu & Kashmir

जम्मू और कश्मीर

Candidate Answer: Jammu & Kashmir

जम्मू और कश्मीर

QID : 234 - Stagflation is a period of _____.

मुद्रास्फीतिजनित मंदी किसकी अवधि है?

Options:

- 1) Persistent high inflation combined with high unemployment
लगातार उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी
- 2) Persistent high inflation combined with low unemployment
लगातार उच्च मुद्रास्फीति के साथ कम बेरोजगारी
- 3) Persistent low inflation combined with high unemployment
लगातार कम मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी
- 4) Persistent low inflation combined with low unemployment
लगातार कम मुद्रास्फीति के साथ कम बेरोजगारी

Correct Answer: Persistent high inflation combined with high unemployment

लगातार उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

KnowledgePhilic.com

UPSC | SSC | Bank | Railway | Lic | Fci | DMRC

Candidate Answer: Madhya Pradesh
मध्यप्रदेश

QID : 240 - Ashoka converted to which religion after the Kalinga war?

कलिंग युद्ध के पश्चात् सम्राट अशोक ने किस धर्म का स्वीकार किया था?

Options:

- 1) Jainism
जैन
- 2) Buddhism
बौद्ध
- 3) Christianity
इसाई
- 4) Judaism
जूदाइज़्म

Correct Answer: Buddhism
बौद्ध

Candidate Answer: Buddhism
बौद्ध

QID : 241 - Gandhi Ji started the Non-Cooperation Movement in?

गाँधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी?

Options:

- 1) 1880
- 2) 1900
- 3) 1920
- 4) 1940

Correct Answer: 1920

Candidate Answer: 1920

QID : 242 - Who discovered X-Ray?

एक्स-रे का अविष्कार किसने किया था?

Options:

- 1) Wilhelm Rontgen
विलहेल्म रॉन्टजेन
- 2) William Lee
विलियम ली
- 3) X Rollswick
एक्स रोल्सविक
- 4) I Thompson
आय थॉम्पसन

Correct Answer: Wilhelm Rontgen
विलहेल्म रॉन्टजेन

Candidate Answer: Wilhelm Rontgen
विलहेल्म रॉन्टजेन

QID : 243 - Find the power of a convex lens if the image formed is at a distance of 25 cm from the lens when the object is placed on the other side of the lens at 12 cm from the optical centre?

एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं, यदि प्रतिबिंब का गठन लेंस से 25 से.मी. की दूरी पर होता है, जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 12 से.मी. की दूरी पर रखा गया है?

Options:

- 1) -4.33 diopters
-4.33 डायोप्टर
- 2) 12.33 diopters
12.33 डायोप्टर
- 3) -12.33 diopters
-12.33 डायोप्टर
- 4) 4.33 diopters
4.33 डायोप्टर

Correct Answer: 12.33 diopters
12.33 डायोप्टर

Candidate Answer: -4.33 diopters
-4.33 डायोप्टर

QID : 244 - What is the unit of the physical quantity Entropy?

भौतिक मात्रा एंट्रॉपी की इकाई क्या है?

Options:

- 1) watt per kelvin
वाट प्रति केल्विन
- 2) newton per kelvin
न्यूटन प्रति केल्विन
- 3) pascal per kelvin
पास्कल प्रति केल्विन
- 4) joule per kelvin
जूल प्रति केल्विन

Correct Answer: joule per kelvin
जूल प्रति केल्विन

KnowledgePhilic.com

UPSC | SSC | Bank | Railway | Lic | Fci | DMRC

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 245 - Which Article specifies the Fundamental Duties of every citizen?

कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है?

Options:

- 1) Article 80
अनुच्छेद 80
- 2) Article 343
अनुच्छेद 343
- 3) Article 51A
अनुच्छेद 51A
- 4) Article 356
अनुच्छेद 356

Correct Answer: Article 51A

अनुच्छेद 51A

Candidate Answer: Article 51A

अनुच्छेद 51A

QID : 246 - Article 173 of the Indian Constitution "Qualification for membership of the State Legislature" deals with?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 "राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता" किससे संबंधित है?

Options:

- 1) the directive principles of state policy
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
- 2) the State Government
राज्य सरकार
- 3) the Union Government
केंद्र सरकार
- 4) the fundamental rights of the Indian Citizen
भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार

Correct Answer: the State Government

राज्य सरकार

Candidate Answer: the State Government

राज्य सरकार

QID : 247 - Michael Schumacher is associated with which sport?

माइकल शुमाकर किस खेल से सम्बंधित है?

Options:

- 1) Football
फूटबॉल
- 2) Golf
गोल्फ
- 3) Formula One racing
फॉर्मूला वन रेसिंग
- 4) Swimming
तैराकी

Correct Answer: Formula One racing

फॉर्मूला वन रेसिंग

Candidate Answer: Formula One racing

फॉर्मूला वन रेसिंग

QID : 248 - Who is the author of "The Guest"?

"द गेस्ट " के लेखक कौन हैं?

Options:

- 1) Mohit Goyal
मोहित गोयल
- 2) Mitali Meelan
मिताली मिलन
- 3) Ashwini Parashar
अश्विनी पाराशर
- 4) Anand Neelakantan
आनंद नीलकंतन

Correct Answer: Mitali Meelan

मिताली मिलन

Candidate Answer: Mohit Goyal

मोहित गोयल

QID : 249 - If price of an article decreases from Rs P1 to Rs 190, when quantity demanded increases from 5000 units to 5200 units, and if point elasticity of demand is -0.8 find P1?

यदि एक वस्तु की मात्रा माँग 5000 इकाईयों से बढ़कर 5200 इकाईयों तक पहुँचने पर उसकी कीमत P1 रु से घटकर 190 रु हो जाती है और यदि माँग का लोच बिंदु -0.8 है तो P1 निकालें ?

KnowledgePhilic.com

UPSC | SSC | Bank | Railway | Lic | Fci | DMRC

Options:

- 1) Rs 220
220 रु
2) Rs 240
240 रु
3) Rs 200
200 रु
4) Rs 250
250 रु

Correct Answer: Rs 200

200 रु

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]**QID : 250** - When a Cuttlefish is described as a Molluscs, it is at which level of classification?

जब एक कटलफिश को एक मोलस्क के रूप में वर्णित किया जाता है, तब यह वर्गीकरण के किस स्तर पर स्थित है?

Options:

- 1) Class
वर्ग
2) Order
क्रम
3) Family
परिवार
4) Phylum
संघ

Correct Answer: Phylum

संघ

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]**QID : 251** - If $\cos 45^\circ - \sec 60^\circ = x$, then the value of x isयदि $\cos 45^\circ - \sec 60^\circ = x$, तो x का क्या मान है?**Options:**

- 1) $(\sqrt{3}-4)/2\sqrt{3}$
2) 1
3) $(1-2\sqrt{2})/\sqrt{2}$
4) $(\sqrt{3}+\sqrt{2})/2$

Correct Answer: $(1-2\sqrt{2})/\sqrt{2}$ **Candidate Answer:** $(1-2\sqrt{2})/\sqrt{2}$

KnowledgePhilic.com

UPSC I SSC I Bank I Railway I Lic I Fci I DMRC

QID : 252 - A man travels 400 km in, partly by rail and partly by steamer. He spends 9 hours more time on steamer. If the velocity of the steamer is 30 km/hr and the velocity of rail is 70 km/hr, how much distance does he cover by steamer?

एक आदमी 400 कि.मी. की यात्रा आंशिक रूप से रेल द्वारा और आंशिक रूप से जहाज द्वारा पूरी करता है। वह जहाज पर 9 घंटे अधिक समय खर्च करता है। यदि जहाज की गति 30 कि.मी./घंटा है और रेलगाड़ी की गति 70 किलोमीटर/घंटा है, वह जहाज से कितनी दूरी तय करता है?

Options:

- 1) 309 km
309 कि.मी.
2) 371 km
371 कि.मी.
3) 464 km
464 कि.मी.
4) 556 km
556 कि.मी.

Correct Answer: 309 km

309 कि.मी.

Candidate Answer: 309 km

309 कि.मी.

QID : 253 - Raheem sells a machine for Rs 48 lakhs at a loss. Had he sold it for Rs 60 lakh, his gain would have been 5 times the former loss. Find the cost price of the machine.

रहीम एक मशीन 48 लाख रु में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 60 लाख रु में बेचा होता, तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 5 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य प्राप्त करें।

Options:

- 1) Rs 58 lakhs
58 लाख रु
2) Rs 69.6 lakhs
69.6 लाख रु
3) Rs 42 lakhs
42 लाख रु
4) Rs 50 lakhs
50 लाख रु

Correct Answer: Rs 50 lakhs

50 लाख रु

Candidate Answer: Rs 42 lakhs

42 लाख रु

QID : 264 - Find length of the arc whose central angle is 45° and radius of the circle is 28 cm?

एक ऐसे वृत्तखण्ड की लंबाई निकालें, जिसका केंद्रीय कोण 45° है और वृत्त की त्रिज्या 28 से.मी. है?

Options:

- 1) 11 cm
11 से.मी.
- 2) 33 cm
33 से.मी.
- 3) 44 cm
44 से.मी.
- 4) 22 cm
22 से.मी.

Correct Answer: 22 cm
22 से.मी.

Candidate Answer: 22 cm
22 से.मी.

QID : 265 - The area of a square is 100 sq cm, find length of its diagonal?

एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग से.मी. है, तो उसके विकर्ण की लंबाई निकालें?

Options:

- 1) $10\sqrt{2}$ cm
 $10\sqrt{2}$ से.मी.
- 2) 10 cm
10 से.मी.
- 3) 20 cm
20 से.मी.
- 4) $20\sqrt{2}$ cm
 $20\sqrt{2}$ से.मी.

Correct Answer: $10\sqrt{2}$ cm
 $10\sqrt{2}$ से.मी.

Candidate Answer: $10\sqrt{2}$ cm
 $10\sqrt{2}$ से.मी.

QID : 266 - Ticket for an adult is Rs 1500 and a child is Rs 800. 1 child goes free with two adults. If a group has 25 adults and 12 children what is the discount the group gets?

एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1500 रु है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 800 रु है। दो वयस्कों के साथ 1 बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 25 वयस्क और 12 बच्चे हैं तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी?

Options:

- 1) 26.47 percent
26.47 प्रतिशत
- 2) 20.38 percent
20.38 प्रतिशत
- 3) 31.60 percent
31.60 प्रतिशत
- 4) 33.33 percent
33.33 प्रतिशत

Correct Answer: 20.38 percent
20.38 प्रतिशत

Candidate Answer: 26.47 percent
26.47 प्रतिशत

QID : 267 - If $(9 - 3x) - (17x - 10) = -1$, then the value of x is

यदि $(9 - 3x) - (17x - 10) = -1$, तो x का मान है

Options:

- 1) 1
- 2) -1
- 3) 9/10
- 4) -9/10

Correct Answer: 1

Candidate Answer: 1

QID : 268 - If $a - b = -7$ and $a^2 + b^2 = 85$, then find ab.

यदि $a - b = -7$ और $a^2 + b^2 = 85$, तो ab ज्ञात करें।

Options:

- 1) 18
- 2) -30
- 3) -44
- 4) -60

Correct Answer: 18

Candidate Answer: 18

QID : 269 - Prabodh has done $1/2$ of a job in 30 days, Sapan completes the rest of the job in 45 days. In how many days can they together do the job?

प्रबोध ने 30 दिन में एक काम का $1/2$ भाग पूरा कर लिया है। सपन बचा हुआ काम 45 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं?

Options:

- 1) 18 days
18 दिन
- 2) 48 days
48 दिन
- 3) 27 days
27 दिन
- 4) 36 days
36 दिन

Correct Answer: 36 days

36 दिन

Candidate Answer: 36 days

36 दिन

QID : 270 - The sum of a non-zero number and thrice its reciprocal is $52/7$. Find the number.

एक अशून्य संख्या और इसके व्युत्क्रम के तिगुने का योग $52/7$ है। संख्या ज्ञात करें।

Options:

- 1) 8
- 2) 9
- 3) 7
- 4) 6

Correct Answer: 7

Candidate Answer: 9

QID : 271 - If $2x - 2(3 + 4x) < -1 - 2x > -5/3 - x/3$; then x can take which of the following values?

यदि $2x - 2(3 + 4x) < -1 - 2x > -5/3 - x/3$; तो x का क्या मान होगा?

Options:

- 1) 1
- 2) 2
- 3) -2
- 4) -1

Correct Answer: -1

Candidate Answer: -1

KnowledgePhilic.com

UPSC | SSC | Bank | Railway | Lic | Fci | DMRC

QID : 272 -

Refer the below data table and answer the following Question.

नीचे दिये गए डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें।

	Weight (kg) वजन (किलोग्राम)	Height in meter ऊंचाई (मीटर)
Aabha / आभा	68	1.68
Aahana / अहाना	77	1.57
Aakaanksha / आकांक्षा	55	1.8
Aakriti / आकृति	51	1.76

Who has the least weight to height ratio?

वजन और ऊंचाई का अनुपात किसका सबसे कम है?

Options:

- 1) Aabha
आभा
- 2) Aahana
आहाना
- 3) Aakaanksha
आकांक्षा
- 4) Aakriti
आकृति

Correct Answer: Aakriti

आकृति

Candidate Answer: Aakriti

आकृति

QID : 275 -

Refer the below data table and answer the following Question.

नीचे दिये गए डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें।

Partners भागीदार	Present % share वर्तमान % हिस्सा
Anand / आनंद	15
Basu / बसु	5
Chinmay / चिन्मय	15
Dhiraj / धीरज	20
Ejaz / एजाज	45

If the company has issued six lakh shares between its five partners and if Basu offers to sell 15,000 of his shares to Ejaz, then Ejaz will have how many shares?

यदि एक कंपनी ने अपने पांच भागीदारों के बीच छः लाख शेयर जारी किए हैं और अगर बसु एजाज को अपने शेयरों में से 15,000 बेचने का प्रस्ताव करता है, तो एजाज के पास कितने शेयर होंगे?

Options:

- 1) 270000 shares
270000 शेयर
- 2) 300000 shares
300000 शेयर
- 3) 255000 shares
255000 शेयर
- 4) 285000 shares
285,000 शेयर

Correct Answer: 285000 shares
285,000 शेयर

Candidate Answer: 255000 shares
255000 शेयर

KnowledgePhilic.com

QID : 276 - In the following question, the sentence given with blank to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option.

Purush wandered _____ through life, with no clear ideas of where he was heading and what he wanted to accomplish.

Options:

- 1) madly
- 2) excitedly
- 3) crazily
- 4) aimlessly

Correct Answer: aimlessly

Candidate Answer: aimlessly

QID : 277 - Improve the bracketed part of the sentence.

Would it be impolite (**to be asked**) why they are leaving?

Options:

- 1) to ask
- 2) for asking
- 3) for being asked
- 4) no improvement

Correct Answer: to ask

Candidate Answer: to ask

QID : 278 - Rearrange the parts of the sentence in correct order.

We should learn our lesson

P-from this history and stay away

Q-of our neighbours

R-from interfering in the messy domestic politics

Options:

- 1) PRQ
- 2) PQR
- 3) QPR
- 4) RPQ

Correct Answer: PRQ

Candidate Answer: PQR

QID : 279 - Select the antonym of

to hew

Options:

- 1) to prune
- 2) to chop
- 3) to agglutinate
- 4) to cleave

Correct Answer: to agglutinate**Candidate Answer:** [NOT ANSWERED]

QID : 280 - In the following question, the sentence given with blank to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option.

The chess player moved his piece to a more _____ position, securing the win.

Options:

- 1) profitable
- 2) auspicious
- 3) advantageous
- 4) worthwhile

Correct Answer: advantageous**Candidate Answer:** worthwhile

QID : 281 - Select the synonym of

maestro**Options:**

- 1) neophyte
- 2) catechumen
- 3) sophomore
- 4) conductor

Correct Answer: conductor**Candidate Answer:** conductor

QID : 282 - In the following question, a sentence has been given in Direct/Indirect speech. Out of the four alternatives suggested, select the one, which best express the same sentence in Indirect/Direct speech.

The coach said, "Don't move, boys."

Options:

- 1) The coach told to the boys don't move.
- 2) The coach said to the boys not to be moving.
- 3) The coach asked the boys not to move.
- 4) The coach told to them, don't move boys.

Correct Answer: The coach asked the boys not to move.**Candidate Answer:** The coach asked the boys not to move.

QID : 283 - Rearrange the parts of the sentence in correct order.

Public goods are**P-important as they****Q-mitigate the impact of****R-income poverty and inequality****Options:**

- 1) QRP
- 2) PQR
- 3) RPQ
- 4) QPR

Correct Answer: PQR**Candidate Answer:** PQR

QID : 284 - Improve the bracketed part of the sentence.

The workers are bent (**on**) getting a full months pay as bonus.

Options:

- 1) for
- 2) upon
- 3) to
- 4) no improvement

Correct Answer: upon**Candidate Answer:** no improvement

QID : 285 - Select the antonym of

to flay**Options:**

- 1) to scalp
- 2) to peel
- 3) to excoriate
- 4) to sheath

Correct Answer: to sheath**Candidate Answer:** [NOT ANSWERED]

QID : 286 - In the following question, a sentence has been given in Active/Passive voice. Out of four alternatives suggested, select the one, which best expresses the same sentence in Passive/Active voice.

They will advise me about the price of the accessories.

Options:

- 1) I will have been advised about the price of the accessories.
- 2) I would have been advised about the price of the accessories.
- 3) I shall be advised about the price of the accessories.
- 4) I would have had been advised about the price of the accessories.

Correct Answer: I shall be advised about the price of the accessories.

Candidate Answer: I shall be advised about the price of the accessories.

QID : 287 - Select the word with the correct spelling.

Options:

- 1) Paraguay
- 2) snugled
- 3) gimicky
- 4) benifice

Correct Answer: Paraguay

Candidate Answer: snugled

QID : 288 - In the following question, some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select 'No Error'.

Mother does not hardly(A)/know what happened(B)/in school yesterday.(C)/No error(D)

Options:

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) D

Correct Answer: A

Candidate Answer: A

QID : 289 - In the following question, some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select 'No Error'.

No beggar who comes(A)/to our doors(B)/goes back empty handed.(C)/No error(D)

Options:

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) D

Correct Answer: B

Candidate Answer: B

QID : 290 - In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which is the best substitute of the phrase.

To lift or haul something heavy with great effort.

Options:

- 1) heave
- 2) shrimp
- 3) wimp
- 4) runt

Correct Answer: heave

Candidate Answer: wimp

QID : 291 - In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom/phrase.

flea market

Options:

- 1) a market for semi-precious stones and jewellery
- 2) a market where stolen goods are sold
- 3) a street market selling second-hand goods
- 4) a small but crowded and noisy place

Correct Answer: a street market selling second-hand goods

Candidate Answer: a market where stolen goods are sold

QID : 292 - Select the word with the correct spelling.

Options:

- 1) libreto
- 2) jazziest
- 3) serephim
- 4) kamikazey

Correct Answer: jazziest

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 293 - Select the synonym of

troll

Options:

- 1) spruce
- 2) suave
- 3) gnome
- 4) dapper

Correct Answer: gnome**Candidate Answer:** [NOT ANSWERED]**QID : 294** - In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which is the best substitute of the phrase.**A conclusion or agreement done or reached decisively and with authority.****Options:**

- 1) precise
- 2) definitive
- 3) reliable
- 4) specific

Correct Answer: definitive**Candidate Answer:** definitive**QID : 295** - In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom/phrase.**flesh and blood****Options:**

- 1) a very gory murder scene
- 2) a lot of hard work
- 3) loss of lives in battle
- 4) a person's physical body and their needs and frailties

Correct Answer: a person's physical body and their needs and frailties**Candidate Answer:** a person's physical body and their needs and frailties**QID : 296** - In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

The scene will now shift to obtaining _____ instruments of ratification to bring the agreement into force _____ 2020, the first year of its _____ implementation. The agreement will enter into force with the ratification of _____ 55 countries, whose aggregate greenhouse gas (GHG) emissions _____ at least 55 per cent of global emissions.

The scene will now shift to obtaining _____ instruments

Options:

- 1) enough
- 2) full
- 3) lavish
- 4) comfortable

Correct Answer: enough**Candidate Answer:** enough**QID : 297** - In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

The scene will now shift to obtaining _____ instruments of ratification to bring the agreement into force _____ 2020, the first year of its _____ implementation. The agreement will enter into force with the ratification of _____ 55 countries, whose aggregate greenhouse gas (GHG) emissions _____ at least 55 per cent of global emissions.

bring the agreement into force _____ 2020

Options:

- 1) on
- 2) before
- 3) at
- 4) previous

Correct Answer: before**Candidate Answer:** before**QID : 298** - In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

The scene will now shift to obtaining _____ instruments of ratification to bring the agreement into force _____ 2020, the first year of its _____ implementation. The agreement will enter into force with the ratification of _____ 55 countries, whose aggregate greenhouse gas (GHG) emissions _____ at least 55 per cent of global emissions.

the first year of its _____ implementation.

Options:

- 1) proposal
- 2) proposition
- 3) supposed
- 4) proposed

Correct Answer: proposed**Candidate Answer:** proposed

QID : 299 - In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

The scene will now shift to obtaining _____ instruments of ratification to bring the agreement into force _____ 2020, the first year of its _____ implementation. The agreement will enter into force with the ratification of _____ 55 countries, whose aggregate greenhouse gas (GHG) emissions _____ at least 55 per cent of global emissions.

The agreement will enter into force with the ratification of _____ 55 countries

Options:

- 1) partially
- 2) at least
- 3) slightly
- 4) somewhat

Correct Answer: at least

Candidate Answer: at least

QID : 300 - In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

The scene will now shift to obtaining _____ instruments of ratification to bring the agreement into force _____ 2020, the first year of its _____ implementation. The agreement will enter into force with the ratification of _____ 55 countries, whose aggregate greenhouse gas (GHG) emissions _____ at least 55 per cent of global emissions.

whose aggregate greenhouse gas (GHG) emissions _____ at least 55 per cent of global emissions.

Options:

- 1) established
- 2) constitute
- 3) enact
- 4) complement

Correct Answer: constitute

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

KnowledgePhilic.com

UPSC | SSC | Bank | Railway | Lic | Fci | DMRC